

अध्याय - 4 | व्यावसायिक सेवाएँ

QUIZ
PART-14

1. जीवन बीमा की विषय-वस्तु क्या होती है?

- A. भौतिक संपत्ति
B. जहाज़ व माल
C. मनुष्य का जीवन
D. भाड़ा (C)

व्याख्या: तालिका के अनुसार जीवन बीमा की विषय-वस्तु मनुष्य का जीवन है।

2. अग्नि बीमा में कौन-सा तत्व शामिल होता है?

- A. केवल निवेश
B. सुरक्षा एवं निवेश दोनों
C. केवल सुरक्षा
D. केवल लाभ (C)

व्याख्या: अग्नि बीमा में केवल सुरक्षा का तत्व होता है, निवेश का नहीं।

3. सामुद्रिक बीमा की विषय-वस्तु क्या होती है?

- A. जीवन
B. माल, जहाज़ और भाड़ा
C. भवन
D. कृषि भूमि (B)

व्याख्या: सामुद्रिक बीमा में जहाज़, माल और भाड़ा बीमित किए जाते हैं।

4. बीमा-योग्य हित जीवन बीमा में कब आवश्यक होता है?

- A. केवल दावा करते समय
B. केवल बीमा लेते समय
C. बीमा लेते समय आवश्यक, दावा करते समय आवश्यक नहीं
D. दावा करते समय ही आवश्यक (C)

व्याख्या: जीवन बीमा में बीमा-योग्य हित बीमा लेते समय होना आवश्यक है।

5. अग्नि बीमा में बीमा-योग्य हित कब आवश्यक होता है?

- A. न बीमा लेते समय, न दावे के समय
B. केवल दावे के समय
C. बीमा लेते समय व हानि के समय दोनों में
D. केवल बीमा लेते समय (C)

व्याख्या: अग्नि बीमा में बीमा-योग्य हित दोनों—बीमा लेते समय और हानि के समय—आवश्यक होता है।

6. जीवन बीमा किस सिद्धांत पर आधारित नहीं है?

- A. क्षतिपूर्ति
B. बीमा-योग्य हित
C. पूर्ण सद्भावना
D. प्रीमियम (A)

व्याख्या: जीवन बीमा क्षतिपूर्ति का अनुबंध नहीं है क्योंकि जीवन की क्षति मापी नहीं जा सकती।

7. अग्नि बीमा किस सिद्धांत पर आधारित है?

- A. निवेश
B. क्षतिपूर्ति
C. बोनस
D. निश्चित लाभ (B)

व्याख्या: अग्नि बीमा केवल वास्तविक हानि की क्षतिपूर्ति करता है।

8. सामुद्रिक बीमा की अवधि कैसी हो सकती है?

- A. केवल एक वर्ष
B. केवल पाँच वर्ष
C. एक यात्रा, एक अवधि या दोनों
D. कोई अवधि नहीं (C)

व्याख्या: सामुद्रिक बीमा एक यात्रा, एक समयावधि या दोनों को मिलाकर लिया जा सकता है।

9. किस बीमा में हानि मापी नहीं जा सकती?

- A. अग्नि बीमा
B. जीवन बीमा
C. सामुद्रिक बीमा
D. सभी में (B)

व्याख्या: जीवन बीमा में हानि मापी नहीं जा सकती क्योंकि जीवन का मूल्य निश्चित नहीं होता।

10. अग्नि बीमा में पॉलिसी की राशि किससे अधिक नहीं हो सकती?

- A. बीमा कराने वाले की आय
B. बीमित वस्तु के मूल्य
C. बाजार मूल्य से 10% अधिक
D. सरकारी निर्धारित सीमा (B)

व्याख्या: अग्नि बीमा कभी भी बीमित संपत्ति के वास्तविक मूल्य से अधिक नहीं कराया जा सकता।